

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



MOLD-TEK

Packaging Limited

(Formerly known as Moldtek Plastics Ltd.)

November 26, 2020

To, BSE Limited., 1 st Floor, New Trading Wing, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 BSE Scrip code: 533080	To, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Ref: MOLDTKPAC - EQ
--	--

Dear Sir / Madam,

Subject: Intimation as per Regulation 92 of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“SEBI ICDR Regulations”) – Issue of Basis of Allotment advertisement in newspapers in respect of rights issue of partly-paid equity shares of the Company along with the detachable warrants (“Rights Issue”)


We enclose copies of Basis of Allotment advertisement published on November 26, 2020, in connection with the Rights Issue, under sub-regulation (1) of Regulation 92 of the SEBI ICDR Regulations, in all editions of the English national daily newspaper, the Financial Express, all editions of the Hindi national daily newspapers, Jansatta and the Hyderabad edition of the Telugu daily newspaper, Nava Telangana, each with wide circulation.


This is for dissemination on your website.

Thanking you,

Yours truly,

For Mold-Tek Packaging Limited


Thakur Vishal Singh
Company Secretary



Corporate Office :

Plot # 700, Road No. 36, Jubilee Hills, Hyderabad - 500 033, Telangana, INDIA.
Phone : +91-40-40300300, Fax : +91-40-40300328, E-mail : ir@moldtekindia.com
Website : www.moldtekgroup.com CIN No: L21022TG1997PLC026542

Covid pushes Taj hotel chain to review cost-cutting moves

PR SANJAI
November 25

INDIAN HOTELS, THE luxury hotel chain run by the Tata Group, used the coronavirus-imposed lockdown to see where it could save costs.

"This was the historic opportunity to review our fixed and variable costs," chief executive officer Puneet Chhatwal said on Wednesday in a Bloomberg Television interview. "The industry never experienced such a revenue decline in last 100 years."

The firm, which owns the iconic Taj brand and operates The Pierre in New York City, didn't cut any jobs but



The firm, which owns the iconic Taj brand and operates The Pierre in New York City, didn't cut any jobs but redeployed some staff elsewhere in the salt-to-software Tata empire, Chhatwal said.

The company slumped to a ₹380 crore (\$51 million) loss in the six months ended September 30 from a ₹140 crore profit a year earlier, as a 73% plunge in revenue eclipsed 36% cost savings.

Its shares have rebounded 82% from a six-year low in May as India's economy gradually reopens. Prime Minister Narendra Modi imposed a strict and sudden lockdown in March to contain the coronavirus outbreak.

—BLOOMBERG

TAURUS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
CIN: U67190MH1993PLC073154
Head Office & Regd Office: Ground Floor, AML Centre-1, 8 Mahal Industrial Estate, Mahakali Caves Road, Andheri (E), Mumbai - 400 093. Tel: 022 - 6624 2700
Email: customer@taurusmutualfund.com A copy of CSID, SAI and CKIM along with application form may be obtained from Fund's Website: www.taurusmutualfund.com

TAURUS Mutual Fund

CORRIGENDUM TO NOTICE CUM ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI), SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SIDs) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIMs) OF SCHEMES OF TAURUS MUTUAL FUND
Change (Closure) to the List of Official Point of Transactions of KFin Technologies Pvt. Ltd., Registrar & Transfer Agent of Taurus Mutual Fund:
This has reference to our Notice cum Addendum No. 17/2020-21 dated November 24, 2020 published on November 25, 2020 - kindly note the following correction -
Investors/Unit holders are informed to take note that the following branch shall not be closed for business and will continue to operate as the Official Point of Transactions of KFin Technologies Pvt. Ltd., Registrar & Transfer Agent for Taurus Mutual Fund -

Branch	Region	Address & Contact Details	Revised Update
Margao	Bangalore	KFin Technologies Pvt. Ltd., 2nd Floor, Dalal Commercial Complex, Pajifond, Margao - 403601 Tel : 0832-2731823	Branch to continue to operate as normal - w.e.f. November 25, 2020 <i>Earlier Addendum for branch closure stands corrected.</i>

This Addendum forms an integral part of the SAI, SIDs & KIMs of schemes of Taurus Mutual Fund, as amended from time to time. All other terms and conditions of SAI, SIDs and KIMs of Scheme(s) will remain unchanged.

Place: Mumbai
Date: November 25, 2020
Notice cum Addendum No. 18/2020-21

For Taurus Asset Management Company Ltd.
(Investment Manager for Taurus Mutual Fund)
Sd/-
Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Hero MotoCorp Limited
Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No. 2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070
CIN: L35911DL1984PLC017354 | Phone: 011-46044220
Fax: 011-46044399 | E-mail: secretarial@heromotocorp.com
Website: www.heromotocorp.com

PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES
Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. ("Company") are hereby informed that the Original Share Certificates, details of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to requests received from concerned shareholders, the Company intends to issue duplicate share certificates in lieu of the said original Share Certificates (Face Value Rs.2/-) in their favour:

Folio No.	Shareholders Name	Face Value	Distinctive Nos.	Certificate No(s)	No. of Shares			
HML0100919	NITIN B CHOKSHI	Rs.10/-	1191166-1191215	23833	50			
			2132616-2132665	42662	50			
			2495366-2495415	49917	50			
			2899816-2899865	58006	50			
			1976567-1976516	304023	50			
			34248204-34248253	393862	50			
			34248254-34248303	393863	50			
			34248304-34248353	393864	50			
			34248354-34248403	393865	50			
			34248404-34248453	393866	50			
HML0130918	H M ARJUN	Rs.10/-	19352058-19352077	286549	20			
			19352078-19352087	286550	10			
			19352088-19352097	286551	05			
			19352093-19352094	286552	02			
			19956893-19956893	310839	01			
			34879542-34879579	406712	38			
			Any person having objections to issue of duplicate Share Certificates, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office or send an email at secretarial@heromotocorp.com within 7 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates.					

For Hero MotoCorp Ltd.
Sd/-
Neerja Sharma
Company Secretary & Chief Compliance Officer

Place : New Delhi
Date : 25/11/2020

ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprurfund.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com
Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Equity & Debt Fund (the Scheme)
Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved declaration of the following dividend under the dividend option of the Scheme, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e on December 1, 2020*:

Name of the Scheme/Plan	Dividend (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each)*#	NAV as on November 24, 2020 (₹ Per unit)
ICICI Prudential Equity & Debt Fund		
Annual Dividend	0.35	13.51

\$ The dividend payout will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the dividend option of the Scheme.
Subject to deduction of applicable statutory levy.
* or the immediately following Business Day, if that day is a Non - Business Day.
Dividend will be paid to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the dividend option of the Scheme, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of dividend, the NAV of the dividend option of the Scheme would fall to the extent of dividend payout and statutory levy (if applicable).

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Place : Mumbai
Date : November 25, 2020
No. 011/11/2020

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprurfund.com
As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.
To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit <https://www.iciciprurfund.com> or visit AMFI's website <https://www.amfiindia.com>

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

MIRAE ASSET Mutual Fund

NOTICE CUM ADDENDUM NO. AD/39/2020
THIS NOTICE CUM ADDENDUM SETS OUT THE CHANGES TO BE MADE IN THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION ("SAI"), SCHEME INFORMATION DOCUMENT ("SID") AND KEY INFORMATION MEMORANDUM ("KIM") OF ALL THE SCHEMES OF MIRAE ASSET MUTUAL FUND ("MAMF")

Closure of the Official Points of Acceptance of Transactions of KFin Technologies Pvt. Ltd.
NOTICE is hereby given that the investors / unitholders are advised to take note of the closure of the Official Points of Acceptance of Transactions of KFin Technologies Pvt. Ltd. ("KFin"), Registrar and Transfer Agent for Mirae Asset Mutual Fund (the Fund) with effect from November 25, 2020.

Sr.No.	Branch Name	Address
1	Dharwad	KFin Technologies Pvt. Ltd., Adinath Complex, Beside Kamal Automobiles, Bhoovi Galli, Opp. Old Laxmi Talkies, P B Road, Dharwad - 580 001.
2	Alleppy	KFin Technologies Pvt. Ltd., 1st Floor, JP Towers, Mullackal, KSRTC Bus Stand, Alleppy - 688 011.
3	Malappuram	KFin Technologies Pvt. Ltd., 2nd Floor, Peekays Arcade, Down Hill, Malappuram - 676 505.
4	Dindigul	KFin Technologies Pvt. Ltd., No. 59B, New Pensioner Street, Palani Road, Opp. Gomathi Lodge, Dindigul - 624 001.
5	Pollachi	KFin Technologies Pvt. Ltd., 1st Floor, MKG Complex, Opp. to Gowri Shankar Hotel, Pollachi - 642 001.
6	Thanjavur	KFin Technologies Pvt. Ltd., No. 1, Basement, Nallaiyah Complex, Srinivasam Pillai Road, Thanjavur - 613 001.
7	Tirupur	KFin Technologies Pvt. Ltd., No. 669A, Kamaraj Road, Near Old Collector Office, Tirupur - 641 604.
8	Vijayanagaram	KFin Technologies Pvt. Ltd., D No. 20-20-29, 1st Floor, Surya Nagar, Kalavapuvu Meda, Near Ayodhya Stadium, Dharmapuri Road, Vijayanagaram - 535 002.
9	Nellore	KFin Technologies Pvt. Ltd., D.No.16-5-66, Ramarao Complex, No. 2, Shop No.305, 3rd Floor, Nagula Mitta Road, Opp. Bank of Baroda, Nellore - 524 001.
10	Jaunpur	KFin Technologies Pvt. Ltd., R N Complex, 1-1-9-G.R. N. Complex, Opp. Pathak Honda, Above Oriental Bank of Commerce, Jaunpur - 222 002.
11	Korba	KFin Technologies Pvt. Ltd., Nidhi Biz Complex, Plot No 5, Near Patidar Bhawan, T. P. Nagar, Korba - 495 677.
12	Saharanpur	KFin Technologies Pvt. Ltd., 18 Mission Market, Court Road, Saharanpur - 247 001.
13	Ratlam	KFin Technologies Pvt. Ltd., 1 Nagpal Bhawan, Free Ganj Road, Do Batti, Near Nokia Care, Ratlam - 457 001.
14	Dalhousie	KFin Technologies Pvt. Ltd., 2nd Floor, Room No. 226, R N Mukherjee Road, Kolkata - 700 001.

Accordingly, SAI, SID and KIM of all the schemes of MAMF stands amended suitably to reflect the change as stated above.
This notice cum addendum forms an integral part of SAI, SIDs and KIMs of the Scheme(s) of MAMF, as amended from time to time. All the other terms and conditions of SAI, SIDs and KIMs of the Scheme(s) will remain unchanged.

For and on behalf of the Board of Directors of
MIRAE ASSET INVESTMENT MANAGERS (INDIA) PVT. LTD.
(Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

Place : Mumbai
Date : November 25, 2020
Sd/-
AUTHORISED SIGNATORY
MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited) (CIN: U65990MH2019PTC324625).
Registered & Corporate Office: 606, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098.
☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customer@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This advertisement does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold, to subscribe, or to sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated October 17, 2020 (the "Letter of Offer") filed with stock exchanges namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") (collectively, the "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

MOLD-TEK Packaging Limited

Mold-Tek Packaging Limited was originally incorporated as Treasure Paks Private Limited, a private limited company on February 28, 1997, at Hyderabad, under the provisions of the Companies Act, 1956. Subsequently, the name of our Company was changed to Treasure Paks Limited on August 10, 2007. Subsequently, the name of our Company was changed to Moldtek Plastics Limited with effect from August 20, 2007. Thereafter the name of our Company was changed to its present name Mold-Tek Packaging Limited with effect from March 12, 2010. For details of change in our name and the registered office of our Company, see "General Information" on page 36 of the Letter of Offer.

Registered Office and Corporate Office: 8-2-293/82/A/700, Ground Floor Road No 36, Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana 500033
Tel: (91 40) 4030 0323 • Contact Person: Thakur Vishal Singh, Company Secretary and Compliance Officer • E-mail: cs@moldteckpackaging.com • Website: www.moldteckpackaging.com
Corporate Identification Number: L21022TG1997PLC026542

PROMOTERS OF OUR COMPANY: JANUMAHANTI LAKSHMANA RAO, ADIVISHNU SUBRAMANYAM AND PATTABHI VENKATESWARA RAO

ISSUE OF UP TO 5,55,330 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 180 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 175 PER RIGHTS EQUITY SHARE) ALONG WITH 6 DETACHABLE WARRANTS FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 184 PER DETACHABLE WARRANT FOR EVERY 1 RIGHTS EQUITY SHARE ALLOTTED IN THE ISSUE, (TOGETHER WITH THE RIGHTS EQUITY SHARES, THE "RIGHTS SECURITIES"), FOR AN AMOUNT COLLECTIVELY NOT EXCEEDING ₹ 7,130.44 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 50 (FIFTY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS OCTOBER 22, 2020 (THE "ISSUE"). For further details, see "Terms of the Issue" beginning on page 133 of the Letter of Offer.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Mold-Tek Packaging Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Wednesday, October 28, 2020 and closed on Wednesday, November 11, 2020 and the last date for on-market renunciation was on Friday, November 06, 2020. The total number of Applications (including 938 ASBA Applications for 4,71,245 Rights Securities and 2,410 Applications for 1,67,441 Rights Securities through R-WAP) received were 3,348 for 6,38,686 Rights Securities, which includes Applications for subscription to additional Rights Securities. Out of a total of 3,348 Applications received, 197 Applications for 23,845 Rights Securities were rejected on technical grounds as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 3,151 Applications for 6,14,841 Rights Securities, which was 110.72% of the number of Rights Securities Allotted under the Issue.

The Basis of Allotment was finalised on Tuesday, November 17, 2020, in consultation with the Lead Manager, the Registrar to the Issue and BSE, the Designated Stock Exchange. The Rights Committee of the Board of Directors of the Company has allotted 5,55,330 Rights Equity Shares along with 33,31,980 detachable Warrants on Wednesday, November 18, 2020 to successful applicants in terms of the Letter of Offer and the Basis of Allotment. All valid Applications (including R-WAP Applications) have been considered for allotment. The break-up of Applications (including R-WAP Applications) is given below.

1. Information regarding the total Applications received (i.e. Applications received through both ASBA process and R-WAP facility):

Category	Application Received (including R-WAP)		Rights Securities Applied for			Rights Securities Allotted		
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Eligible Equity Shareholders	3,015	90.05%	599,286	192,370,806	93.83%	521,715	1,67,470,515	93.95%
Renounees*	333	9.95%	39,400	12,647,400	6.17%	33,615	1,07,90,415	6.05%
Total	3,348	100.00%	6,38,686	205,018,206	100.00%	5,55,330	17,82,60,930	100.00%

* The Investors (identified based on PAN) whose names do not appear in the list of Eligible Equity Shareholders on the record date and who hold the REs as on the Issue Closing Date and have applied in the Issue are considered as the Renounees.

2. Basis of Allotment:

Category	No. of Valid Applications Received*	No. of Rights Securities accepted and Allotted against Rights Entitlements (A)	No. of Rights Securities accepted and Allotted against Additional Rights Securities applied for (B)	Total Rights Securities accepted and Allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	2,835	386,980	134,735	521,715
Renounees	325	33,615	-	33,615
Total	3,160	4,20,595	1,34,735	5,55,330

*Application includes 9 partially accepted cases and were allotted 909 Rights Securities.

Please note that 100 Rights Securities allotted to an applicant are currently being kept in the demat suspense escrow account opened by the Company due to moratorium being imposed by Reserve Bank of India on Lakshmi Vilas Bank Limited, from which the applicant has made the ASBA application for purchasing the Rights Securities. The Rights Securities will be credited to the applicant's account once the application amount is received from the applicant's bank.

Intimation for Allotment/refund/rejections: The dispatch of allotment order cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors has been completed on November 24, 2020. The instructions to (i) ICICI Bank Limited ("Banker to the Issue") for processing refund through NACH/NEFT/RTGS/direct credit/cheques/pay orders/demand drafts for Application made using R-WAP facility was given on November 18, 2020 and (ii) SCBS for unlocking of funds in case of ASBA applicants were given on November 17, 2020. The listing application was executed with BSE and NSE on November 19, 2020. The credit of Rights Securities in dematerialised form to respective demat accounts of Allottees was completed on November 24, 2020. The Rights Securities allotted to resident Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form and who have not provided details of their respective demat accounts, have been credited to the demat suspense account, in accordance with the terms of Letter of Offer. Such Eligible Equity Shareholders are required to send, among others, details of their demat account to our Company or the Registrar within six (6) months from the Allotment Date, to get the Rights Securities transferred in their demat account. In case non-receipt of demat account, our Company shall conduct a sale of such Rights Securities lying in the demat suspense account on the floor of the Stock Exchanges at the prevailing market price and remit the proceeds of such sale (net of brokerage, applicable taxes and administrative and incidental charges) to the bank account mentioned by the resident Eligible Equity Shareholders in their respective Application Forms and from which the payment of Application Money was made. In case such bank accounts cannot be identified due to any reason or bounce back from such account, our Company may use payment mechanisms such as cheques, demand drafts etc. to such Eligible Equity Shareholders to remit such proceeds. For further details, please refer to "Terms of the Issue" - beginning on page 133 of the Letter of Offer. Pursuant to the listing and trading approvals granted by NSE and BSE, the Rights Securities Allotted in the Issue are expected to commence trading on BSE and NSE with effect from November 27, 2020 under separate ISINs for the Rights Equity Shares (IN9893J01019) and Warrants (INE893J13016). The Equity Shares allotted pursuant to the conversion of the Warrants will have the same ISIN as the Equity Shares (i.e. INE893J01029). In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020 the request for extinguishment of ISIN pertaining to Rights Entitlement has been sent to NSDL and CDSL on November 20, 2020.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS SECURITIES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that submission of the Letter of Offer to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 126 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" on page 129 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the "Disclaimer Clause of NSE" beginning on page 129 of the Letter of Offer.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
<p>Emkay Your success is our business</p> <p>Emkay Global Financial Services Limited 7th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg, Dadar - West, Mumbai 400 028 Tel: +91 22 66121212 E-mail: moldteckpack.ri@emkayglobal.com Investor grievance e-mail: ibg@emkayglobal.com Website: www.emkayglobal.com Contact person: Deepak Yadav / Wincy Nadar SEBI registration number: INM000011229</p>	<p>LINK Intime</p> <p>Link Intime India Private Limited C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai 400 083 Tel: +91 22 4918 6000 E-mail: moldtek.rights@linkintime.co.in Investor grievance e-mail: moldtek.rights@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact person: Sumeet Deshpande SEBI registration number: INR000004058</p>	<p>MOLD-TEK Packaging Limited</p> <p>Mr. Thakur Vishal Singh Mold Tek-Packaging Limited Company Secretary and Compliance Officer Plot No. 700, Road No. 36, Jubilee Hills Hyderabad - 500033, Telangana Tel: +91 40 40300323 Email: cs@moldteckpackaging.com</p>
<p>Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue/post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process or R-WAP facility may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCBS, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/first holder, folio number or demat account number, number of Rights Securities applied for, amount blocked (in case of ASBA process) or amount debited (in case of R-WAP facility), ASBA Account number and the Designated Branch of the SCBS where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors, along with a copy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process), and copy of the e-acknowledgement (in case of R-WAP facility).</p> <p>The Rights Entitlements and Right Securities have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended ("US Securities Act"), or any U.S. State securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States of America or the territories or possessions thereof (the "United States" or "U.S."), except in a transaction exempt from the registration requirements of the US Securities Act. Accordingly, the Rights Entitlements and Rights Securities referred to in the Letter of Offer are being offered and sold only outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the US Securities Act ("Regulation S"). The offering to which the Letter of Offer relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Securities or Rights Entitlements for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said securities. Accordingly, the Letter of Offer should not be forwarded to or transmitted in or into the United States at any time.</p> <p>THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE RIGHTS SECURITIES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.</p> <p>Place : Hyderabad Date : November 25, 2020</p>	<p>On behalf of Board of Directors For Mold-Tek Packaging Limited Sd/- Janumahanti Lakshmana Rao Chairman and Managing Director</p>	<p>The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e. NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com and on the website of Lead Manager to the Issue i.e. Emkay Global Financial Services Limited at www.emkayglobal.com. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section titled "Risk Factors" beginning on page 19 of the Letter of Offer.</p> <p>PRESSMAN</p>

మహిళలపై హింసకు అంతమువ్వుడే..



మనిషిలో పరివర్తన, సమాజంలో మార్పుతోనే సాధ్యం

● చిన్నప్పటి నుంచే నైతిక విలువల బోధన

పెరగాలి: బద్వా వెబినార్లో

ఆర్.దుర్గా ప్రసన్న

నవతెలంగాణ బ్యూరో - హైదరాబాద్

మనమ్మల్లో పరివర్తన, సమాజంలో మార్పుతోనే మహిళలపై హింస ఆగుతుందని హైకోర్టు అడ్వకేట్, ప్యామిలి కోర్సెలర్ ఆర్.దుర్గా ప్రసన్న తెలిపారు. మహిళలపై హింస వ్యతిరేక దినోత్సవాన్ని సందర్భంగా బుధవారం ఆఖిల భారత ప్రజాతంత్ర మహిళా సంఘం (బద్వా) రాష్ట్ర కమిటీ అధ్యక్షులు మహిళా- రాజ్యాంగ హక్కులు - చట్టాలు అనే అంశంపై వెబినార్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి బద్వా రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు కె.ఎన్.ఆశాల అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సందర్భంగా దుర్గా ప్రసన్న మాట్లాడుతూ మహిళల హక్కులు సాధించుకోవడం క్రమంలో మొదట కుటుంబం నుంచే వ్యతిరేక ఎదురుతుప్పులను తెలిపారు. వివాహానికి ముందు తల్లిదండ్రులు, వివాహం తర్వాత అత్తమామల దగ్గర ఆస్తిలో వాటా పొందే విషయంలోనూ అన్యాయానికి గురవుతుందన్నారు. పోరాటంతో అనేక చట్టాలు సాధించుకున్నప్పటికీ, హింస పూర్తిగా ఆగడానికి ఆ చట్టాలు మాత్రమే సరిపోవచ్చు. గతంలో తప్పు చేసిన వాడిని సమాజమంతా కలిసి ఒంటరి చేసేవారనీ, ప్రస్తుతం తమకెందుకు అనే దోరణి పెరిగిపోయిందనూ అందోళన వ్యక్తం చేశారు. చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకు బండ్లలో, పాఠశాలల్లో నైతిక విలువలను బోధించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటే మాత్రం తప్పుకుండా వస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. బద్వా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి

మల్లు లక్ష్మి మాట్లాడుతూ శతాబ్దం ఏ హక్కుల కోసమైతే పోరాటం చేశామో తిరిగి అవే హక్కుల కోసం పోరాడాలని పరిస్థితిని బీజేపీ ప్రభుత్వం కల్పించింది విమర్శించారు. సమైక్య చేసే హక్కును కూడా కోల్పోయే ప్రమాదం తెచ్చింది. మహిళల పోరాటంతో ఎన్నో చట్టాలను సాధించుకున్నారనీ, మరన్ని పోరాటాలకు ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. మనవాదంతో మహిళలను వెనక్కి నెట్టేందుకు బీజేపీ చేస్తున్న కుయుక్తులను పోరాటంతో తిప్పికొట్టాలన్నారు. చట్టాల అమలులో మహిళల భాగస్వామ్యం పెరగాలని అభిప్రాయపడ్డారు.

రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు టి.జ్యోతి మాట్లాడుతూ మహిళల హక్కుల కోసం ఆవిర్భవించిన బద్వా ఇతర సంఘాలతో కలిసి బిచ్చ ఉద్యమంతో అనేక చట్టాలను సాధించింది. వరకట్టం నేటికీ పెద్ద సమస్య అని అభిప్రాయపడ్డారు. హత్రాసీ ఘటన తర్వాత బాధితురాలి కుటుంబం పట్ల అక్కడి పాలకులు వ్యవహరించిన తీరు మహిళల ఉనికిని ప్రశ్నార్థకం చేసేలా ఉందని విమర్శించారు. బిచ్చ ఉద్యమాలతోనే హక్కులు సాధించుకోగలమనీ, కాపాడుకోగలమనీ తెలిపారు.

రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు బి.హైమావతి మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగంలో హక్కులను పొందుపరిచిన పాలకులు వాటిని అమలు చేయడం లేదని విమర్శించారు. ఆకిల్ తిర్పందోల్, నిరక్షరాస్యత నిర్మూలనలో, నిత్యావసర ధరలను అదుపులో ఉంచడంలో విఫలమయ్యారన్నారు. మహిళల హక్కుల విషయంలో బంధుత్వ శబ్దం తొలగిస్తూ కన్నా వెనకబడి ఉన్నామని తెలిపారు. దాన్వాలి సెనెటింగ్ పండుతున్నాకలి చావులు ఆగడం లేదన్నారు. సూతన వ్యవసాయ చట్టం వస్తే పంట పండకముందే కార్మికులు కొనుగోలు చేస్తారని అందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలందరూ ఏకం కావాలని సమయమిదని అన్నారు. కె.ఎన్.ఆశాల మాట్లాడుతూ డిసెంబర్ 10న మానవ హక్కుల దినోత్సవం వరకు కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని తెలిపారు.

తేజస్వి సూర్యను అరెస్టు చేయాలి

వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల నాయకుల డిమాండ్

● ఓయూ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు

నవతెలంగాణ-ఓయూ

అనుమతి లేకుండా ఓయూలోకి వచ్చిన బీజేపీవేసిన అధ్యక్షుడు తేజస్వి సూర్యను అరెస్టు చేయాలని వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు, పరిశోధక విద్యార్థులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు బుధవారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అతను తన అనుచరులతో వచ్చి ఓయూ గేటును విరగొట్టారని, కొవిడ్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వందల మందితో ఇక్కడికి వచ్చారని తెలిపారు. ఒక ఎంపీగా ఉండి ఇలా విధ్వంసానికి పాల్పడటం దుర్మార్గమైన చర్య అన్నారు. వారి చర్యల వల్ల యూనివర్సిటీ బుధవారం ప్రారంభం కాలేదని చెప్పారు. బయటి వ్యక్తులు ఎవరూ రావద్దని

నిబంధనలున్నా పట్టించుకోలేదన్నారు. రైగా వర్సిటీలో మతపరమైన అంశాలతో విద్యోధులను దెబ్బకొట్టే విధంగా మాట్లాడటం దారుణమన్నారు. ఇది ఉస్మానియా విద్యార్థి అమరల పోరాట సూక్తికి విరుద్ధం అన్నారు. తేజస్వి సూర్యను వెంటనే అరెస్టు చేయాలని కోశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్.ఎఫ్.ఎస్. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆర్.ఎల్.మూర్తి, పీడిఎన్.యూ. రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు విజయ, ఎన్.ఎఫ్.ఓ. ఓయూ కార్యదర్శి రవి నాయక్, పరిశోధక విద్యార్థులు కరణ్, శ్రీకాంత్ పాల్గొన్నారు.

తేజస్వి కేసు నమోదు.

ఓయూలోకి అనుమతి లేకుండా రావడంతో రిజిస్ట్రార్ ప్రొసెసర్ గోపాల్రెడ్డి ఫిర్యాదు మేరకు బెంగళూరు ఎంపీ, బీజేపీవేసిన అరెస్టు జారీ అవుతుంది దిగ్గ్రాంతుల కేసు నమోదు చేసినట్లు ఓయూ ఇన్ స్పెక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు. ఆయనతోపాటు మరికొంత మందిపై కేసు నమోదయింది.

బాలికపై లైంగికదాడి

● గర్భం దాల్చడంతో వెలుగులోకి..

నవతెలంగాణ-కురవి

మైసూర్ పై ఓ వ్యక్తి లైంగిక దాడి చేసి గర్భవతిని చేశాడు. ఈ ఘటన మహిళాబాధాపాత జిల్లా కురవి మండలం తాటూతలదా గ్రామపంచాయతీ పరిధిలోని పిల్లిగుండ్ల తండాలో బుధవారం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. కురవి పోలీస్ స్టేషన్లో ఎన్ఐబి ఇబ్బలు

రెండురోజుల కిందట బాలిక అనారోగ్యానికి గురికావడంతో బుధవారం తల్లి జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ప్రయవేలు ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్ళింది. బాలిక గర్భవతి అని వైద్యులు చెప్పడంతో డిగ్నాంతుల కేసు నమోదు చేసినట్లు ఓయూ ఇన్ స్పెక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు. ఆయనతోపాటు మరికొంత మందిపై కేసు నమోదయింది.

పేదలకు అండగా నిలవాలి

హైదరాబాద్: అన్నార్జులైన పేదలకు అండగా నిలవాలి అవసరమన్నదని పలువురు వక్తులు అభిప్రాయపడ్డారు. డా.ఆనంద్, శిల్పా రెడ్డి మిత్ర బృందం ఆధ్వర్యంలో సహాయ శిబిరం నిర్వహించారు. బంజారా మహిళా ఎన్ఫీజి తరఫున ప్రముఖ డాక్టర్ శైలెక్లర్, సామాజిక కార్యకర్త డా.ఆనంద్, మిత్రులు శిల్పా రెడ్డి, పవన్ లక్ష్మి, అలీఖాన్, ఆనంద్ వంగర సహాయ సహకారాలు అందించారు. వరదలు, కొవిడ్ కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్న పేదలకు సహాయం చేసే సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య విద్యుత్ ఉద్యోగుల పంపిణీ భారత సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో కొనసాగిన వాదనలు బుధవారం ముగిశాయి. ఇరుపక్షాల వాదనలు



వలస కూలీలను గుర్తించారు. వారికి నిత్యావసర వస్తువులను కాలు చౌదరి, బలెండ్ల కుమార్ అధ్యక్షులు అందించారు.

విద్యుత్ ఉద్యోగుల విభజనపై సుప్రీం తీర్పు లభిస్తుంది

నవ తెలంగాణ - సూర్యకాన్త బ్యూరో

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య విద్యుత్ ఉద్యోగుల పంపిణీ భారత సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో కొనసాగిన వాదనలు బుధవారం ముగిశాయి. ఇరుపక్షాల వాదనలు

విన్న తర్వాత సుప్రీంకోర్టు తుది తీర్పును రిజర్వ్ చేస్తున్నట్లు జస్టిస్ అశోక్ భూపాల్, జస్టిస్ ఎంఆర్ షాలతో కూడిన డ్విస్ జ్యుస్టీస్ బెంచ్చుకు వెళ్ళింది. ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య నెలకొన్న ఈ వివాదంపై ఇంకా ఎటువూ అభ్యంతరాలు, అనుమానాలు ఉంటే నవంబర్ 27వ తేదీలోపు తమకు అందజేయాలని సుప్రీం ధర్మాసనం అవకాశం కల్పించింది. అయితే, ఆ అభ్యంతరాలు లిఖితపూర్వకంగానే ఇవ్వాలని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం చెప్పి సమాప్తం చేసింది.

సీబి బ్యాంక్ లాకర్ నుంచి 40 లక్షల నగదు, నగలు స్వాధీనం

నవ తెలంగాణ-ప్రత్యేక ప్రసిద్ధి

ఏసీబీకి పట్టుబడ్డ కామారెడ్డి పోలీసు స్టేషన్ సీబి బ్యాంక్ అకౌంట్లపై అవినీతి నిరోధక శాఖ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా నిజామాబాద్లోని కంట్రీ క్లబ్ వద్ద గల యాక్టివ్ బ్యాంక్ నుంచి జగదీష్ కు చెందిన బ్యాంక్ లాకర్ ను బుధవారం ఏసీబీ అధికారులు తెచ్చారు. రూ.32 లక్షల రూపాయలకు పైగా నగదుతో పాటు రూ.9 లక్షల రూపాయలకు పైగా బంగారు, వెండి నగలును అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటితో పాటు అత్యంత విలువైన భూ దాక్టర్లను కూడా ఏసీబీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడ్డ ఆరోపణలపై ఇప్పటికే కేసును జగదీష్ కు నమోదు చేసినట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తు చేశారు.

తమిళనాడు గజగణ

చెన్నై: నివర్ తుపాన్ తమిళనాడును వణికిస్తోంది. తుపాన్ ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాల్లో కుండపోతగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. గురువారం మధ్యాహ్నం వరకు అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణ శాఖ తాజాగా చేసిన హెచ్చరికతో చెన్నై నగర వాసుల పరిస్థితి అందోళన కరంగా మారింది. భారీ వర్షాల కారణంగా చెరువులు నిండి, నగరంపై విరుచుకుపడిన 2015 వాటి భయానక దృశ్యాలు నగర వాసులు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటున్నారు. చెరువులకు గండి పడే అవకాశం ఉందన్న హెచ్చరికల నేపథ్యంలో తమిళనాడు ప్రభుత్వం కూడా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంది. ముంపు ప్రాంతాల్లో దాదాపుగా 1.38 లక్షల మందిని సహాయక శిబిరాలకు తరలించింది. వీరిలో 28వేల మందికి పైగా చిన్నారులు ఉన్నారు. మరో వెయ్యి సమస్యకర ప్రాంతాలనూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది.

సమ్మెకు టీఆర్ఎస్ మద్దతు

క్షేత్రస్థాయిలో కార్యకర్తలంతా పాల్గొనాలి: ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షులు బి.వినోద్ కుమార్

నవతెలంగాణ బ్యూరో - హైదరాబాద్

కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కార్యకర్తల వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా గురువారం జరిగి సార్వత్రిక సమ్మెకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ సహకార మద్దతు తెలుపుతున్నట్లు ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షులు బి.వినోద్ కుమార్ ప్రకటించారు. సీబీఎస్ఎల్ కార్యాలయంలో టీఆర్ఎస్ కేపీ, సీబీఎస్ఎల్ కార్యకర్తల సంఘాల ప్రతినిధుల సమావేశం బుధవారం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా టీఆర్ఎస్ వివోద్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఈ సమ్మెను టీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులంతా బలపర్చాలనీ, క్షేత్రస్థాయిలో కార్యకర్తలు పాల్గొని జయద్రవం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.



చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని రంగాల్లో, అన్ని ప్రాంతాల్లో సమ్మెలో పాల్గొనాలని కోశారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం కార్యకర్తల చట్టాల స్థానంలో కోడెలను తెచ్చి కార్యకర్తల హక్కులపై దాడిచేస్తున్నదని విమర్శించారు. ఆ కోడెలలో కార్యకర్తలకు వ్యతిరేక మైన అంశాలు పొందుపర్చిందని తెలిపారు. రాష్ట్రమంట్లో విద్యుత్ సవరణ బిల్లు -2020

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This advertisement does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold, to subscribe, or to sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated October 17, 2020 (the "Letter of Offer") filed with stock exchanges namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") (collectively, the "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

MOLD-TEK Packaging Limited

Mold-Tek Packaging Limited was originally incorporated as Treasure Paks Private Limited, a private limited company on February 28, 1997, at Hyderabad, under the provisions of the Companies Act, 1956. Subsequently, the name of our Company was changed to Treasure Paks Limited on August 10, 2007. Subsequently, the name of our Company was changed to Moldtek Plastics Limited with effect from August 20, 2007. Thereafter the name of our Company was changed to its present name Mold-Tek Packaging Limited with effect from March 12, 2010. For details of change in our name and the registered office of our Company, see "General Information" on page 36 of the Letter of Offer.

Registered Office and Corporate Office: 8-2-293/82/A/700, Ground Floor Road No 36, Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana 500033
Tel: (91 40) 4030 0323 • Contact Person: Thakur Vishal Singh, Company Secretary and Compliance Officer • E-mail: cs@moldtekpacaging.com • Website: www.moldtekpacaging.com
Corporate Identification Number: L21022G1997PLC026542

PROMOTERS OF OUR COMPANY: JANUMAHANTI LAKSHMANA RAO, ADIVISHNU SUBRAMANYAM AND PATTABHI VENKATESWARA RAO

ISSUE OF UP TO 5,55,330 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 180 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 175 PER RIGHTS EQUITY SHARE) ALONG WITH 6 DETACHABLE WARRANTS FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 184 PER DETACHABLE WARRANT FOR EVERY 1 RIGHTS EQUITY SHARE ALLOTTED IN THE ISSUE, (TOGETHER WITH THE RIGHTS EQUITY SHARES, THE "RIGHTS SECURITIES"), FOR AN AMOUNT COLLECTIVELY NOT EXCEEDING ₹ 1,130.44 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 50 (FIFTY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS OCTOBER 22, 2020 (THE "ISSUE"). For further details, see "Terms of the Issue" beginning on page 133 of the Letter of Offer.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Mold-Tek Packaging Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Wednesday, October 28, 2020 and closed on Wednesday, November 11, 2020 and the last date for on-market renunciation was on Friday, November 06, 2020. The total number of Applications (including 938 ASBA Applications for 4,71,245 Rights Securities and 2,410 Applications for 1,67,441 Rights Securities through R-WAP) received were 6,348 for 6,38,686 Rights Securities, which includes Applications for subscription to additional Rights Securities. Out of a total of 3,348 Applications received, 197 Applications for 23,845 Rights Securities were rejected on technical grounds as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 3,151 Applications for 6,14,841 Rights Securities, which was 110.72% of the number of Rights Securities Allotted under the Issue.

The Basis of Allotment was finalised on Tuesday, November 17, 2020, in consultation with the Lead Manager, the Registrar to the Issue and BSE, the Designated Stock Exchange. The Rights Committee of the Board of Directors of the Company has allotted 5,55,330 Rights Equity Shares along with 33,31,980 detachable Warrants on Wednesday, November 18, 2020 to successful applicants in terms of the Letter of Offer and the Basis of Allotment. All valid Applications (including R-WAP Applications) have been considered for allotment. The break-up of Applications (including R-WAP Applications) is given below.

1. Information regarding the total Applications received (i.e. Applications received through both ASBA process and R-WAP facility):

Category	Application Received (including R-WAP)		Rights Securities Applied for			Rights Securities Allotted		
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Eligible Equity Shareholders	3,015	90.05%	599,286	192,370,806	93.83%	521,715	1,67,470,515	93.95%
Renounees*	333	9.95%	39,400	12,647,400	6.17%	33,615	1,07,80,415	6.05%
Total	3,348	100.00%	6,38,686	205,018,206	100.00%	5,55,330	17,82,60,930	100.00%

* The Investors (identified based on PAN) whose names do not appear in the list of Eligible Equity Shareholders on the record date and who hold the REs as on the Issue Closing Date and have applied in the Issue are considered as the Renounees.

2. Basis of Allotment:

Category	No. of Valid Applications Received*	No. of Rights Securities accepted and Allotted against Rights Entitlements (A)	No. of Rights Securities accepted and Allotted against Additional Rights Securities applied for (B)	Total Rights Securities accepted and Allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	2,835	386,980	134,735	521,715
Renounees	325	33,615	-	33,615
Total	3,160	4,20,595	1,34,735	5,55,330

*Application includes 9 partially accepted cases and were allotted 909 Rights Securities.

Please note that 100 Rights Securities allotted to an applicant are currently being kept in the demat suspense escrow account opened by the Company due to moratorium being imposed by Reserve Bank of India on Lakshmi Vilas Bank Limited, from which the applicant has made the ASBA application for purchasing the Rights Securities. The Rights Securities will be credited to the applicant's account once the application amount is received from the applicant's bank.

Intimation for Allotment/refund/rejections: The dispatch of allotment order cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors has been completed on November 24, 2020. The instructions to (i) ICICI Bank Limited ("Banker to the Issue") for processing refund through NACH/NEFT/RTGS/direct credits/cheques/pay orders/demand drafts for Application made using R-WAP facility was given on November 18, 2020 and (ii) SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA applicants were given on November 17, 2020. The listing application was executed with BSE and NSE on November 19, 2020. The credit of Rights Securities in dematerialised form to respective demat accounts of Allottees was completed on November 24, 2020. The Rights Securities allotted to resident Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form and who have not provided details of their respective demat accounts, have been credited to the demat suspense account, in accordance with the terms of Letter of Offer. Such Eligible Equity Shareholders are required to send, among others, details of their demat account to our Company or the Registrar within six (6) months from the Allotment Date, to get the Rights Securities transferred in their demat account. In case non-receipt of demat account, our Company shall conduct a sale of such Rights Securities lying in the demat suspense account on the floor of the Stock Exchanges at the prevailing market price and remit the proceeds of such sale (net of brokerage, applicable taxes and administrative and incidental charges) to the bank account mentioned by the resident Eligible Equity Shareholders in their respective Application Forms and from which the payment of Application Money was made. In case such bank accounts cannot be identified due to any reason or bounce back from such account, our Company may use payment mechanisms such as cheques, demand drafts etc. to such Eligible Equity Shareholders to remit such proceeds. For further details, please refer to "Terms of the Issue" - beginning on page 133 of the Letter of Offer. Pursuant to the listing and trading approvals granted by NSE and BSE, the Rights Securities Allotted in the Issue are expected to commence trading on BSE and NSE with effect from November 27, 2020 under separate ISINs for the Rights Equity Shares (INE9893J01019) and Warrants (INE9893J01016). The Equity Shares Allotted pursuant to the conversion of the Warrants will have the same ISIN as the Equity Shares (i.e. INE893J01029). In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020 the request for extinguishment of ISIN pertaining to Rights Entitlement has been sent to NSDL and CDSL on November 20, 2020.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS SECURITIES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM. DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that submission of the Letter of Offer to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 126 of the Letter of Offer. DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" on page 129 of the Letter of Offer. DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the "Disclaimer Clause of NSE" beginning on page 129 of the Letter of Offer.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Emkay Emkay Global Financial Services Limited 7 th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg, Dadar - West, Mumbai 400 028 Tel: +91 22 66121212 E-mail: moldtekpac.r@emkayglobal.com Investor grievance e-mail: ibg@emkayglobal.com Website: www.emkayglobal.com Contact person: Deepak Yadav / Wincy Nadar SEBI registration number: INM000011229	LINKIntime Link Intime India Private Limited C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai 400 083 Tel: +91 22 4918 6000 E-mail: moldtek.rights@linkintime.co.in Investor grievance e-mail: moldtek.rights@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact person: Sumeet Deshpande SEBI registration number: INR000004058	MOLD-TEK Packaging Limited Mr. Thakur Vishal Singh Mold Tek-Packaging Limited Company Secretary and Compliance Officer Plot No. 700, Road No. 36, Jubilee Hills Hyderabad - 500033, Telangana Tel: +91 40 40300323 E-mail: cs@moldtekpacaging.com

Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/post-issue related matters. All grievances relating to the ASBA process or R-WAP facility may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/first holder, folio number or demat account number, number of Rights Securities applied for, amount blocked (in case of ASBA process) or amount debited (in case of R-WAP facility), ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors, along with a copy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process), and copy of the e-acknowledgement (in case of R-WAP facility).

The Rights Entitlements and Right Securities have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended ("US Securities Act"), or any U.S. State securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States of America or the territories or possessions thereof (the "United States" or "U.S."), except in a transaction exempt from the registration requirements of the US Securities Act. Accordingly, the Rights Entitlements and Rights Securities referred to in the Letter of Offer are being offered and sold only outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the US Securities Act ("Regulation S"). The offering to which the Letter of Offer relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Securities or Rights Entitlements for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said securities. Accordingly, the Letter of Offer should not be forwarded to or transmitted in or into the United States at any time.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE RIGHTS SECURITIES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

On behalf of Board of Directors
For Mold-Tek Packaging Limited
sd/-
Janumahanti Lakshmana Rao
Chairman and Managing Director

Place : Hyderabad
Date : November 25, 2020

The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e. NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com and on the website of Lead Manager to the Issue i.e. Emkay Global Financial Services Limited at www.emkayglobal.com. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section titled "Risk Factors" beginning on page 19 of the Letter of Offer.

PRESSMAN